



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1120]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2003/अग्रहायण 26, 1925

No. 1120]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2003/AGRAHAYANA 26, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1430(अ)—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधिन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 945 (अ) तारीख 19 अगस्त 2003 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग - 14 के 372.600 कि.मी. (डीसा) से 447.000 कि.मी. (पाटन जिला सीमा) में भूखण्ड पर (चार लेन) का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 3 ब की उपधारा (1) के अनूसरण, में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 ब की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी है ;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 ब की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

अनुसूची

जिला : बनासकांठा

क्र. म.	तालुका	ग्राम	भूमि की कीम	सर्वे नं.	मालिक का नाम	भूमि आवृत्ति हेतु क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	डीसा	(1) सोताम्बला	निजी	21/1A	हरीजन पुनमा वीरा हरीजन बीजोल वीरा हरीजन गणेश वीरा	0.0294
		(2) वडावल	निजी	263	माली भुदराजी भीमाजी	0.0101
		(3) कुंपट	निजी	57	माली अमरतलाल भलाजी	0.1011
		(4) मुडेठा	निजी	1487	ठाकोर भीखाजी चतराजी ठाकोर मफाजी अनुपजी ठाकोर केशवजी मधाजी	0.0202
		(5) खेटवा	ग्रामतल	191/A/1	भील देवाजी हरजीजी	0.0028
				2	भील जगदीश मंगाजी	0.0012
				3	भील उदा हराजी	0.0012
				4	भील उदा हराजी	0.0012
				5	भील प्रकाश पुनमाजी	0.0012
				6	भील राजुजी गोविंदजी	0.0023
				7	ठाकोर तलाजी मोहनजी	0.0034
				8	ठाकोर अशोकजी हठाजी	0.0031
				9	ठाकोर चन्दुजी हठाजी	0.0027
				10	ठाकोर अरविंदजी हठाजी	0.0011
				11	ठाकोर गोविंदजी हठाजी	0.0030
				12	ठाकोर गोविंदजी हठाजी	0.0007
				13	ठाकोर गोविंदजी हठाजी	0.0014
				14	जगतकुमार मगनभाइ ठाकोर	0.0015
				15	जगतकुमार मगनभाइ ठाकोर	0.0005
				16	वलाभाइ वेरसीभाइ ठाकोर	0.0044
				17	नरसिंहभाइ भीमाजीभाइ माजीराणा	0.0052
				191/A/P1	माजीराणा उका सेढा	0.1720
				191/A/P2	भील सुधाबेन पुनमाजी, सगीर कालु मोहन, सगीर भरत मोहन, सगीर कंचन मोहन, सवा सुधाबेन पुनमाजी,	0.2428
				191/A/P3	सुशिलाबेन प्रदीपकुमार, राणा लीलावती जीतेशकुमार	0.1113
				191/A/P4	सुशिलाबेन प्रदीपकुमार, राणा लीलावती जीतेशकुमार	0.1619
		(6) भीलडी	निजी	61/4	नानूभाई दामोदरभाई	0.0025
2	कांकरेज	(1) रतनपुरा	निजी	76/1	ठक्कर दर्शककुमार शंकरलाल वगेरे	0.0506
			निजी	83/2	ठाकोर लक्ष्मीबेन पुनमाजी, ठाकोर सोपाजी पुनमाजी, ठाकोर दिनेश पुनमाजी	0.0101

		निजी	1390/3	नरणभाई त्रिभोवनदास	0.0405
	(2) सिहोरी	निजी	1471/1	दानसुगंभाई रामसुगंभाई बिरजी भाई रामसुगंभाई	0.0708
	(3) आकोली (महाराज वास)	निजी	139/2	रानेरा चनाबेन बेचरजी रानेरा अजमलजी बेचरजी रानेरा विनुजी बेचरजी रानेरा वदन बेचरजी रानेरा आशाबेन बेचरजी रानेरा जशीबेन बेचरजी	0.0607
		निजी	144/1	पिपरानिया अरजनजी खुमाजी	0.0202
	(4) वडा	निजी	847/1	वाधेला बचुजी नानजी वाधेला बाबजी नानजी वाधेला अभेराज सरतानजी वाधेला नशाजी अमराजी वाधेला बबीबेन अभेसिंग	0.2630
		निजी	1106/1	वाधेला बचुजी नानजी वाधेला बाबजी नानजी वाधेला अभेराज सरतानजी वाधेला नशाजी अमराजी वाधेला बबीबेन अभेसिंग	0.0708
	(5) भलागाम	निजी	8	रबारी धेमरभाई छगनभाई रबारी बबुबेन लल्लु भाई	0.0304
	(6) सदुवास	निजी	6/2P1	अश्विनकुमार फकीरचन्द मेहता अरजण पांचण पटेल हसमुख जीवराज पटेल	0.1416

[फा. सं. भाराप्र/तक./एन.एच.यू.पी.-II/ए.डी.बी./2002]

ए.बी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2003

S.O. 1430(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry Transport and Highways, number, S.O. 945 (E) dated the 19th August 2003 issued under sub-section (1) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification

for the public purpose for building, maintenance, management and operation of Deesa – Radhanpur Section in respect of land stretch from km- 372/600 (Deesa) to km- 447/000 (District Border Patan) on the National Highway No- 14 in the State of Gujarat.

And whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the Central Government hereby declare that the lands specified in the Schedule annexed hereto are to be acquired for the aforesaid purpose;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the official Gazette the lands specified in the Schedule annexed hereto shall Vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

DISTRICT: Banaskantha

Sl. no	Name of Taluka	Name of Village	Type of Land	Survey No.	Area of Land (Hect.)	Name of the Land owners or interested persons.
1	2	3	4	5	6	7
1	Deesa	(1) Sotambla	Private	21/1A	0.0294	Harijan Punama Veera, Harjan Beejol Beera, Harijan Ganesh Veera
		(2) Vadaval	Private	263	0.0101	Mali Bhudaraji Bhimaji
			Private	264/1	0.0405	Mali Prabhuji Revaji
		(3) Kumpat	Private	57	0.1011	Mali Amratlal Bhalaaji
		(4) Mudetha	Private	1487	0.0202	Thakor Bhikhaji Chataraji, Thakor Maphaji Anupji, Thakor Keshanji Maganji,
		(5) Khetva	Gramtal	191/A/1	0.0028	Bhil Devaji Harajiji
				2	0.0012	Bhil Jagadish Mangaji
				3	0.0012	Bhil Uda Haraji
				4	0.0012	Bhil Uda Haraji
				5	0.0012	Bhil Prakash Punamaji
				6	0.0023	Bhil Rajuji Govindji
				7	0.0034	Thakore Talaji Mohanaji

				8	0.0031	Thakore Ashokji Hathaji
				9	0.0027	Thakore Chanduji Hathaji
				10	0.0011	Aravindji Hathaji
				11	0.0030	Thakore Govindji Hathaji
				12	0.0007	Thakore Govindji Hathaji
				13	0.0014	Thakore Govindji Hathaji
				14	0.0015	Jagatkumar Maganbhai Thakore
				15	0.0005	Jagatkumar Maganbhai Thakore
				16	0.0044	Valabhai Versibhai Thakore
				17	0.0052	Narsinhbhai Bhimajibhai Majirana
				191/A/P1	0.1720	Majirana Uka Sedha
				191/A/P2	0.2428	Bhil Sudhaben Punmaji, Sagir Kalu Mohan, Sagir Bharat Mohan, Sagir Kanchan Mohan, Sava Sudhaben Punamaji
				191/A/P3	0.1113	Sushilaben Pradeep Kumar Rana Lilavati Jitesh Kumar
				191/A/P4	0.1619	Sushilaben Pradeep Kumar Rana Lilavati Jitesh Kumar
		(6) Bhiladi	Private	61/4	0.0025	Nanubhai Damoder
2	Kankrej	(1) Ratanpur	Private	76/1	0.0506	Thakkar Darshakkumar Shankarlal vegere
			Private	83/2	0.0101	Thakor Lakshmiben Punmaji, Thakor Sopaji Punamaji, Thakor Dinesh Punmaji
			Private	1390/3	0.0405	Naranbhai Tribhuvandas
		(2) Sihori	Private	1471/1	0.0708	Dansung bhai Ramsung Bhai Birjibhai Ramsung Bhai
		(3) Akoli (Maharajvaas)	Private	139/2	0.0607	Ranera Chanaben Becharji Ranera Ajamalji Becharji Ranera Vinuji Becharji Ranera Vadan Becharji Ranera Ashaben Becharji Ranera Jasiben Becharji
			Private	144/1	0.0202	Pepalaniya Arjanji Khumaji
		(4) Vada	Private	847/1	0.2630	Vaghela Bachuji Nanaji Vaghela Babaji Nanaji Vaghela Abheram Sartanji Vaghela Nashaji Amraji Vagheala Babiben Abhesingh
			Private	1106/1	0.0708	Vaghela Bachuji Nanaji Vaghela Babaji Nanaji Vaghela Abheraj Saratanji Vaghela Nashaji Amraji Vaghela Babiben Abhesingh

		(5) Bhalagam	Private	8	0.0304	Rabari Ghemarbhai Chhaganbhai Rabari Babuben Lallubhai
		(6) Saduvas	Private	6/2 P1	0.1416	Ashwinkumar Fakirchand Mehta Arjan Pachan Patel Hasmukh Jivraj Patel

[F. No. NHAI/Tech./NHUP-II/ADB/2002]

A.V. SINGH, Secy.